

## होटलों और ढाबों पर बिक रही अवैध शराब

नगर सहित ग्रामीणों क्षेत्रों और खंडवा इच्छापुर राजमार्ग के ढाबों पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। आबकारी विभाग व पुलिस विभाग भी इन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।

Publish Date: | Fri, 19 Nov 2021 05:19 PM (IST)



सनावद (नईदुनिया न्यूज़)। नगर सहित ग्रामीणों क्षेत्रों और खंडवा इच्छापुर राजमार्ग के ढाबों पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। आबकारी विभाग व पुलिस विभाग भी इन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बताया जाता है कि अवैध शराब सनावद की देशी-विदेशी शराब दुकान से खरीदकर कमीशन पर बेची जाती है। इस संबंध में पहले विधायक सचिन बिरला ने भी ज्ञापन देकर सनावद, बड़वाह व बेड़िया में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। शाम होते ही नगर के आसपास के ढाबों और नगर की शराब दुकान के पास लगे आहाते में शराब पीने वाले लोग बैठते हैं। जिससे युवाओं को शराब की लत लग रही है। अवैध शराब के व्यापार के चलते पिछले दिनों ढकलगांव व मोरघड़ी के युवाओं की मौत हो चुकी है। नईदुनिया में आहाते के खिलाफ नईदुनिया में खबर प्रकाशित होने के बाद आबकारी अमले ने आहाते में विदेशी शराब परोसना बंद कर दिया था। परंतु कुछ दिन बीतते ही शराब ठेकेदार द्वारा आहाते में शराब पिलना फिर से शुरू करवा दिया है। इस मामले में आबकारी निरीक्षक अजयसिंह भदोरिया ने कहा कि समय-समय पर होटलों, ढाबों की सघन चेकिंग करते हैं। लेकिन स्टाफ कम होने के कारण यथोचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। सनावद टीआई मंशाराम रोमडे का कहना है कि लगातार ढाबों और होटलों में सर्चिंग की जा रही है। हमारे द्वारा गीताश्री व होटल सूर्या पर अवैध शराब के क्वार्टर भी जब्त किए हैं। जब भी आबकारी विभाग सहयोग मांगेगा तब पुलिस बल अवैध शराब पकड़ने के लिए उपलब्ध रहेगा।

स्कूलों के पास बिक रहा गुटखा

स्कूलों और कालेज के आसपास पान गुटखा तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित है। लेकिन यहां पर भी खुलेआम पान गुटखा तंबाकू की बिक्री की जा रही है। नगर में नशे के आदी हो चुके युवा अब गांजा व ब्राउन शुगर की ओर प्रेरित हो रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण अवैध नशे के कारोबारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नगर में इस्लामपुरा, रेलवे स्टेशन के पास, बालजी कलोनी के पास अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/khargone-illegal-liquor-being-sold-at-hotels-and-dhabas-7142339>